



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2011 (अग्रहायण 26, 1933)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2011 (AGRAHAYANA 26, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 नवम्बर 2011

नं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/आई.एस.ए./दिसम्बर/2011-- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1 सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7 अनुसूची 'एफ' के रेगुलेशन 204 के अनुसार दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इन्फोरमेशन सिस्टम्स ऑडिट (आई.एस.ए.) कोर्स की निर्धारित परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 24 दिसम्बर 2011 (शनिवार) को प्रातः 10.30 बजे से 2.30 बजे सांय तक निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं :--

परीक्षा केन्द्र :--

- | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 1. अहमदाबाद | 10. दिल्ली/न्यू दिल्ली | 19. जालन्धर | 28. नागपुर |
| 2. अम्बाला | 11. ईरनाकुलम | 20. जोधपुर | 29. नासिक |
| 3. औरंगाबाद | 12. ईरोड | 21. कानपुर | 30. पानीपत |
| 4. बैंगलोर | 13. गांधी धाम | 22. कोल्हापुर | 31. पूना |
| 5. भोपाल | 14. गोहाटी | 23. कोलकाता | 32. राजकोट |
| 6. भुवनेश्वर | 15. ग्वालियर | 24. लखनऊ | 33. रांची |
| 7. चंडीगढ़ | 16. हैदराबाद | 25. लुधियाना | 34. सूरत |
| 8. चेन्नई | 17. इंदौर | 26. मदुरई | 35. तिरुवनन्तपुरम |
| 9. कोयम्बटूर | 18. जयपुर | 27. मुम्बई | 36. वदोदरा |

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है। यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं के लिये है। इस परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) के लिये परीक्षा शुल्क 1,000/- (एक हजार रुपये) मात्र है।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होगा जो किसी भी शेड्यूल बैंक का होना चाहिये डिमांड ड्राफ्ट 'सचिव' दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया के पक्ष में होना चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अपर सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 तक पहुंच जायें।

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिये जो कि अपर सचिव (परीक्षा), दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया, आईसीएआई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 से 100/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की रीजनल और ब्रांचों के कार्यालय में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 21 नवम्बर, 2011 से प्राप्त किये जा सकते हैं आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आईसीएआई.ओआरजी से प्रिन्ट करके परीक्षा शुल्क 1,100/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट के साथ भी भेजा जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09 दिसम्बर 2011 है। आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपर सचिव (परीक्षा) नई दिल्ली को भेजा जाना है।

दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के पश्चात् आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जी. सोमाशेखर
अपर सचिव (परीक्षा)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवंबर 2011

सं. ए-27/17/छठा के.वे.आ./9/2008-स्था.3--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा-17(2) के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम की धारा-97 के खंड(1) और खंड (2)(xxi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृंद और सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन करता है :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-- ये विनियम "कर्मचारी राज्य बीमा निगम" (कर्मचारीवृंद और सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 के 2011 का संशोधन कहे जाएंगे।
2. "कर्मचारी राज्य बीमा निगम" (कर्मचारीवृंद और सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 के ये संशोधन संबंधित पदों के सामने कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित तारीख से प्रभावी माने जाएं।
3. अन्य सभी मदों के संबंध में वेतनमान संख्या ए-27/17/छठा के.वे.आ./9/2008-स्था.3 में यथा अधिसूचित तथा भारत के राजपत्र दिनांक 8 नवंबर, 2008 के भाग 3-खंड 4 में यथा प्रकाशित रहेंगे।

प्रथम अनुसूची

विनियम 2(छ) एवं 7(1) को देखें

क. क.रा.बी. निगम में समूह 'क' 'ख' 'ग' तथा 'घ' के विभिन्न वर्गों के परिशोधित वेतनमानों और परिशोधित वेतन ढांचे सहित विवरण					
क्र. सं.	पद का नाम	परिशोधित वेतन ढांचा (रुपये)			से प्रभावी
		वेतन बैंड	तदनुरूपी वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6
समूह-"क"					
1.	बीमा आयुक्त/आयुक्त	वेतन बैंड-4	37,400--67,000/-	10,000/-	01.06.2011
2.	अपर आयुक्त	वेतन बैंड-4	37,400--67,000/-	8,900/-	01.06.2011
3.	निदेशक	वेतन बैंड-4	37,400--67,000/-	8,700/-	01.06.2011
4.	निदेशक (राजभाषा)	वेतन बैंड-4	37,400--67,000/-	8,700/-	29.07.2011

1	2	3	4	5	6
5.	संयुक्त निदेशक	वेतन बैंड-3	15,600--39,100/-	7,600/-	01.06.2011
6.	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	वेतन बैंड-3	15,600--39,100/-	7,600/-	29.07.2011
7.	उप निदेशक	वेतन बैंड-3	15,600--39,100/-	5,400/-	01.01.2006
8.	उप निदेशक (एस.टी.एस.)	वेतन बैंड-3	15,600--39,100/-	6,600 (उप निदेशक के रूप में 4 वर्ष की नियमित सेवा की समाप्ति पर 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिया जाने वाला वरिष्ठ समयमान)	04.02.2009
समूह-"ख"					
9.	निजी सचिव	वेतन बैंड-2	9,300--34,800/-	4,800/-	01.02.2006
10.	निजी सचिव (एस.टी.एस.)	वेतन बैंड-2	9,300--34,800/-	5,400/- (निजी सचिव के रूप में 4 वर्ष की नियमित सेवा की समाप्ति पर 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिया जाने वाला वरिष्ठ समयमान)	01.02.2006
11.	वैयक्तिक सहायक	वेतन बैंड-2	9,300--34,800/-	4,600/-	01.02.2006
12.	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	वेतन बैंड-2	9,300--34,800/-	4,600/-	4,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में 01.02.2006 से कल्पित रूप में तथा प्रोद्भूत आर्थिक लाभ 01.10.2007 से

सी. एस. केदार
महानिदेशक

बैंगलूर, दिनांक 8 नवंबर 2011

फाइल सं. उ.चि.आ./द.म./ए/19/11/2006.कर्ना.--क.रा.बी. निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में जैसा कि दिनांक 25.04.1951 को इसकी सभा में निगम महानिदेशक के अधिकार पर विचार विमर्श करते हुए क.रा.बी. (सामान्य) अधिनियम 1950 के अधिनियम 105 के अधीन किया गया और यह अधिकार चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली को समसंख्यक फाइल संख्या पी.टी. फाइल यू-13.12.13.205-पी.टी.एम.आर. (चिकि.-I) दिनांक 04.08.2008 के तहत सौंप दी गई तथा समसंख्यक मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली आदेश प्राप्ति संख्या यू-13.12.13.2005-(चिकि.-I) पी.टी.एम.आर. दिनांक 09.09.2008 के तहत मुझे सौंप दी गई। मैं एतद्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (डॉक्टरों) को चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ जो निम्नलिखित दिनांक से लागू होते हुए एक वर्ष के लिए या 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक अथवा पूर्ण कालिक समय तक चिकित्सा निदेशी के रूप में कार्य भार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, अर्थात् स्थापित द्वारा चिकित्सा परीक्षा व आगे चलकर उन्हें प्रमाण-पत्र पारित करने (जब मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदेहजनक हो) के उद्देश्य से कार्य करेंगे।--

नाम	अवधि	केन्द्र का नाम (स्थान/जिला/राज्य)
	से	
डॉ. बी. हेमावती	27.08.2011 जव 26.08.2012	मैसूर एवं नननगुड क्षेत्र

बी. आर. कविशेट्टी
राज्य चिकित्सा आयुक्त (कर्ना.)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 4th November 2011

No. 13-CA(Exam)/ISA/D/2011—In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA(7)/59/2001 dated 28th September 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 24th December 2011 (Saturday) from 10.30 AM to 2.30 PM at the following cities provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each city as detailed below :—

1. Ahmedabad	10. Delhi/New Delhi	19. Jalandhar	28. Nagpur
2. Ambala	11. Ernakulam	20. Jodhpur	29. Nasik
3. Aurangabad	12. Erode	21. Kanpur	30. Panipat
4. Bangalore	13. Gandhidham	22. Kolhapur	31. Pune
5. Bhopal	14. Guwahati	23. Kolkata	32. Rajkot
6. Bhubaneswar	15. Gwalior	24. Lucknow	33. Ranchi
7. Chandigarh	16. Hyderabad	25. Ludhiana	34. Surat
8. Chennai	17. Indore	26. Madurai	35. Trivandrum
9. Coimbatore	18. Jaipur	27. Mumbai	36. Vadodra

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above Test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of "The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi" only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Additional Secretary (Exams) at New Delhi on or before 9th December, 2011.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Additional Secretary (Exams), The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 100/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained upon cash payment on or from 21st November, 2011. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icai.org and the cost of the application form of Rs. 100/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1100/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 9th December, 2011. The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Additional Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 9th December, 2011 will not be entertained under any circumstances.

G. SOMASEKHAR
Addl. Secy. (Exams.)

New Delhi, the 3 November 2011

No. A-27/17/6th CPC/9/2008-E.III—In exercise of the powers conferred by clause (1) and clause (2)(xxi) of the Section-97 of ESI Act read with Section-17(2) of ESI Act, 1948, the Employees' State Insurance Corporation hereby amends the First Schedule of the ESIC (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959 as under :—

1. Short title and commencement :—These regulations may be called the amendment of 2011 to the "Employees' State Insurance Corporation" (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959.
2. These amendment to the "Employees' State Insurance Corporation" (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1959 deem to take effect from the date mentioned in Column No. 4 against the respective posts.
3. The pay scales in respect of all other posts will remain the same as notified vide No. A-27/17/6th CPC/9/2008-E.III and published in Part III-Section 4 of Gazette of India dated November 8, 2008.

C. S. KEDAR
Dir. General

THE FIRST SCHEDULE

[SEE REGULATIONS 2(G) & 7(1)]

A. STATEMENT SHOWING THE VARIOUS CATEGORIES OF POSTS IN GROUP "A", "B", "C" & "D" IN ESI CORPORATION WITH REVISED SCALES AND REVISED PAY STRUCTURE.

Sl. No.	Name of the Post	Pay Band	Revised Pay Structure (Rs.) Corresponding Pay Bands	Grade Pay	Effective from
Group—"A"					
1.	Insurance Commissioner/Commissioner	PB-4	37,400—67,000/-	10,000/-	01.06.2011
2.	Addl. Commissioner	PB-4	37,400—67,000/-	8,900/-	01.06.2011
3.	Director	PB-4	37,400—67,000/-	8,700/-	01.06.2011
4.	Director (Official Language)	PB-4	37,400—67,000/-	8,700/-	29.07.2011
5.	Joint Director	PB-3	15,600—39,100/-	7,600/-	01.06.2011
6.	Joint Director (Official Language)	PB-3	15,600—39,100/-	7,600/-	29.07.2011
7.	Dy. Director	PB-3	15,600—39,100/-	5,400/-	01.01.2006
8.	Dy. Director (STS)	PB-3	15,600—39,100/-	6,600/- (Sr. Time Scale to be granted in the Grade Pay of Rs. 6,600/- on completion of 4 years of regular service as Dy. Director).	04.02.2009
Group—"B"					
9.	Private Secretary	PB-2	9,300—34,800/-	4,800/-	01.02.2006
10.	Private Secretary (STS)	PB-2	9,300—34,800/-	5,400/- (Sr. Time scale to be granted in the Grade Pay of Rs. 5,400/- on completion of 4 years of regular service as Private Secretary).	01.02.2006
Group—"C"					
11.	Personal Assistant	PB-2	9,300—34,800/-	4,600/-	01.02.2006
12.	Social Security Officer	PB-2	9,300—34,800/-	4,600/-	Notionally from 01.01.2006 in the Grade Pay of Rs. 4,600/- & monetary benefit to accrue from 01.10.2007

Bangalore, the 8th November 2011

File No. DMC/SZ/A/19/11/2006/KAR—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power delegated to the Medical Commissioner, E.S.I.C., Hqrs., New Delhi vide Director General Order File No. Pt. File U-13/12/13/2005-PTMR (Med. I) dated 04.08.2008 and further re-delegated to me vide Headquarters, ESIC, New Delhi Order File No. U-13/12/13/2005-Med. I/PTMR dated 09.09.2008. I hereby authorized the following Doctor(s) to function as Medical Authority at a monthly remuneration at a in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till the date of attaining the age of 65 years or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them. When the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period		Name of the Centre (Place/Distt./State)
	From	To (1 year)	
Dr. B. Hemavathi	27.08.2011	26.08.2012	Mysore & Nanjangud Area

B. R. KAVISHETTI
State Medical Commissioner (Kar.)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011